

HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana) Ph.:0124-4675500, Fax:C124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com Website: www.hbportfolio.com, CIN:L67120HR1994PLC034148

27th May, 2025

Listing Centre

The Listing Department BSE Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Company Code: 532333

Sub: - Newspaper Publication (Audited Financial Results for the last quarter and financial year ended 31.03.2025)

Dear Sir / Madam,

Please find attached copy of Newspaper Publication of the Extract of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the last quarter and financial year ended 31st March, 2025 duly published by the Company in Business Standard (English & Hindi Edition) on Tuesday, 27th May, 2025 pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copy of the said publication is also available on the website of the Company, www.hbportfolio.com.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For HB Portfolio Limited

Mohit Chambar

Mohit Chauhan

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 26 May

Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated the country's first 9,000 horsepower (HP) locomotive engine, a locomotive manufacturing shop, and rolling stock workshop built at a cost of ₹21,405 crore in Gujarat's Dahod.

Siemens, which has bagged the project from the Railways to design, engineer, manufacture and maintain 1,200 electric locomotives of 9.000 HP, said this would be crucial in realising the government's target to increase the share of railways in freight movement to 45 per cent from the current 27 per cent. Each of the 1,200 locomotives of 9,000 HP has a speed of 120 km/hour. The locomotives, which have a haulage capacity of 5,800 tonnes, are

designed to transport freight across India. Meanwhile, addressing a rally in Dahod, Modi said Pakistan's sole objective was to foster hatred towards India and orchestrate harm, while India remains steadfast in its pursuit of poverty eradica-



Prime Minister Narendra Modi at a locomotive manufacturing shop and rolling stock workshop, in Guiarat's Dahod on Monday

office, said: "While India believes in tour- promoted terrorism ruined your future."

tion and economic advancement. He ism, Pakistan considers terrorism as tourhailed Operation Sindoor and said "those" ism. I want to ask the people of Pakistan daring to wipe off the sindoor of our sisters what they have achieved? Today, India is must know their end is near". In Bhuj, the the fourth largest economy in the world. PM, who on Monday completed 11 years in But what is your situation? Those who

Drawback of duty paid on inputs used in making export products shouldn't be denied



CHATROOM TNC RAJAGOPALAN

The standard input-output norms (SION) for our product are already fixed but they do not fully meet our

requirements. So, we had applied for review of the norms under Para 4.06 of the HBP, which is still under consideration. Meanwhile, we have received an order for export of the same product. Can we now apply for advance authorisation under SION or under Para 4.07 of the HBP to meet our immediate requirement? Yes. There is no bar on

applying for advance authorisation under SION or Para 4.07 of HBP while your request for review of the SION under Para 4.06 of the HBP is pending.

We have obtained an advance authorisation under SION, which allows 4 inputs. We want to import only 3 of the inputs. We are holding duty paid stocks of the 4th input. We will make the export product using all the 4 inputs. Can we file DEEC-cum-Drawback shipping bill and adjust the exports against the export obligation and also claim the drawback of the duty paid

on the 4th input? In my opinion, you can do that, because there is nothing in Section 75 of the Customs Act, 1975 or the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017 to deny the drawback of the duty paid on the inputs except under specified circumstances. However,

you better get the duty paid input removed from the advance authorisation because the CBEC Circular no.89/2003-Cus dated 6th October 2003 says that (relevant extracts) 'brand rates can be fixed for rebating duties on such inputs which do not figure in relevant Advance Licence/DEEC Book and which have been procured by exporters indigenously or through import under the cover of proper duty paying documents i.e. Central Excise invoices or bills of entries, as the case may be'. Also, you may take careful note of Para 4.15 of the FTP which says that 'drawback as per rate determined

and fixed by Customs author-

ity in terms of DoR Rules shall

be available for duty paid

inputs (not specified in the

norms) used in the export

product. For this purpose,

details of duty paid input in

applicant shall indicate clearly

imported or indigenous

the application for Advance Authorisation. As per details mentioned in the application, Regional Authority shall also clearly endorse details of such duty paid inputs in the condition sheet of the Advance Authorisation'. In my opinion, the restriction that drawback will be available only for 'duty paid inputs not specified in the norms' makes no sense. You may represent to the DGFT to remove that irrational restriction.

I am a student. I want to know what a legalized or visaed invoice is.

■ Some countries require their embassies or consulates abroad to validate the export documents of the sellers in respect of goods shipped to their countries. After due validation, the consulate or the embassy affixes the appropriate endorsement or stamp on the export invoice. The invoice so endorsed is called a legalized or visaed invoice.

Business Standard invites readers' SME queries related to GST, export and import matters. You can write to us at smechat@bsmail.in

ACCENT REGION

UTTAR PRADESH

State to invest ₹8K cr in leather footwear parks

VIRENDRA SINGH RAWAT Lucknow, 26 May

Uttar Pradesh is set to invest ₹8,000 crore in two major leather footwear parks coming up in Agra and Kanpur. aiming to modernise the sector and ramp up exports. The parks, covering a combined 300 acres, will be developed with support from the central government. According to officials, land has already been identified for the projects.

"These parks will drive growth in the leather industry and significantly boost exports from UP," said a state official.

Agra and Kanpur already host a large concentration of leather and clusters and infrastructure. leather goods units, primarily in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. However, most of these businesses lack access to modern technology and marketing tools needed to compete globally.

The new parks will provide a stateof-the-art manufacturing environment to help these units upgrade processes and scale output of footwear, apparel, and other leather products. They seek to attract domestic and global investors across the leather value chain.

To support this, the Yogi Adityanath government is drafting a new leather and footwear policy, targeting to double the state's leather industry in five years. The policy will align with initiatives outlined in the Union

Budget 2025-26. India aims to raise leather and footwear exports from \$5 billion to \$50 billion by 2030. The proposed UP policy will focus on tapping export markets in Africa, Latin America, West Asia, the US, and Europe.

It will also promote leather manufacturing in Kanpur, Agra, Unnao, and Noida, with a focus on integrated

The Kanpur-Unnao leather cluster currently generates ₹12,000 crore annually and exports to West Asia, Europe, China, and Iran. Kanpur's 250 tanneries account for about half of India's leather output and supply belts, holsters, saddles, and boots for security forces. Agra remains a hub for leather footwear. Despite its scale, the UP leather sector continues to face environmental and ecological challenges - issues the new parks and policy

reforms are designed to address.

CHHATTISGARH

Varun Beverages Medanta in talks to invest ₹750 cr

R KRISHNA DAS Raipur, 26 May

In a significant step towards attracting investments in the state's health care and industrial sectors, the Chhattisgarh government is in discussion with the Medanta Hospital Group and

Varun Beverages. Chief Minister (CM) Vishnu Deo Sai had a detailed discussion with Naresh Trehan, founder of Medanta Hospital and a renowned cardiologist, and Ravi Jaipuria, chairman of Varun Beverages, at Chhattisgarh Bhawan in New Delhi last week, the state government said.

According to the statement, Medanta Hospital proposed establishing a state-of-the-art multi-specialty hospital in Raipur. Trehan said that an investment of nearly ₹500 crore had been planned. Medanta, which launched its first hospital in 2009 in Gurgaon, is setting up its unit

in different states. Similarly, Jaipuria proposed setting up a carbonated soft drinks and fruit juice manufacturing plant in the city, involving an investment exceeding ₹250 crore, the state government added. The project is expected to accelerate industrial growth in the state and generate employment opportunities, it said.

VBL is a key player in the beverage industry and one of the largest franchisees of PepsiCo in the world, barring the US.

RAIASTHAN

Policy soon to boost film productions in state

ANIL SHARMA Jaipur, 26 May

Rajasthan is planning to come out with a policy soon in a bid to boost film and television production in the state.

Diya Kumari, the state's deputy chief minister who also holds the tourism portfolio, has directed officials to finalise the policy, alongside working on plans to boost adventure tourism in the state.

This will be the second attempt at such a policy - according to a tourism department official, the first dedicated policy for film tourism had been issued in 2022 to attract film

shootings and production.

The new policy will include ways of easing the processes involved in obtaining approvals for shooting and disbursement of subsidies.

The state has consistently attracted filmmakers from around the world due to its scenic locales like forts, palaces and sand dunes. "Classics like Mughale-Azam (1960) and Guide (1965) were shot in the state. Endless scenes of dunes, drying chillies and village locations are commonplace for films with a rural setting. Even some of the blockbuster television serials and advertisements have Rajasthan as their

backdrop," a tourism department official said.

He added that Hollywood has also utilised Rajasthan's locations, with films like Octopussy (1983) and Holy Smoke (1999). Globally renowned director Satyajit Ray also shot a large portion of Sonar Kella (1971) in the state.

The tourism department is also planning to map the potential of adventure tourism activities (water-based, airbased, and land-based), in consultation with concerned departments and prepare a dedicated policy to provide a framework to entrepreneurs to set up relevant projects in the state.

BEFORE THE HON'BLE TELANGANA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSA COMMISSION, AT: HYDERABAD

Mrs. Tadepalli Lakshmi Sarada

. Max Digi infotech Pvt. Ltd., . Parmesh Construction Co Ltd . Ashish Bhutani,

Square Yards Consulting Private Ltd., M/s. Square Yards Consulting Private Ltd.

Square Yards Consulting Private Ltd., Having its Corporate Office at Good Earth ss Bay, 9th Floor, Sector 58, Gurgao 122011, Represented by its CEO Tanuj Short.Respondent No. 5 / Opposite Party No.

Ms. Square Yards Consulting Private Ltd., Having one of its Branch Office at 5th Floor, Smart Works Coworking, Purvasummit, Whitefiled Road, Kondapur, HI-TEC City, Hyderabad, Telangana-500081, Rep. by its Senior Vice Presiden Mr. Debayan Bhattacharya.

Respondent No.6 /Opposite Party No.6 Vhereas the above named Appellants ints have instituted the F.A. No. 846 or lyderabad in C.C. No.415 of 2022 before the le Telangana State Consumer ssal Commission, at Hyderaba the above named Respondents No.1 to 6 Opposite Parties No.1 to 6. Take notice that the above FA No.846 of 2024 is posted to 20.06.2025 for appearance of Respondents no.5 and 6, on which day you are required to be present either in-person or through a counsel duly instructed, on 20.06.2025 at 10.30 a.m pefore the Hon'ble Telangana State Consum Dispute Redressal Commission, at Hyderaba and in case if you fail to appear, the above sail appeal F.A No. 846 of 2024 will be heard and

(BY THE ORDER OF THE COMMISSION A. BHASKER RAC

Advocate
H. No.1-10-86, Allamthota Bavi, Mayuri Mar

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65910HR1982PLC034071

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Phone: + 91-124-4675500, Fax: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbleasing.com, Website: www.hbleasing.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/202

S. No.	Particulars	Quarter ended	3 months ended in the previous year	(Rs. In Lakh Year ended
		31/03/2025	ended in the previous year 31/03/2024 31/03/	31/03/2025
		Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	0.81	13.63	19.02
1. 2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(13.70)	4.52	(29.60)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(13.70)	4.52	(29.60)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(13.40)	4.50	(29.30)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(13.98)	4.50	(29.88)
6. 7.	Equity Share Capital	1286.27	1100.41	1286.27
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	(715.62)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	Basic: Diluted:	(0.12) (0.12)	0.04 0.04	(0.26) (0.26)

(i) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of this Quarter and Year ended Financial Results is available on the website of Stock Exchange, BSE Limited, www.bseindia.com and Company's website, www.hbleasing.com. The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below

(ii) The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 26th May, 2025 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date



Place : Gurugram

For HB Leasing and Finance Company Limit

ANIL GOYAL

HB PORTFOLIO LIMITED CIN: L67120HR1994PLC034148

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana

Phone: + 91-124-4675500 Fax: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbportfolio.com, Website: www.hbportfolio.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2025

S.	Particulars		Standalone	The state of the s	,	Consolidated	
No.	109-105-10 CARRASO	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended	Quarter ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
		31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations (net)	208.21	3340.60	1492.31	429.56	3732.13	2784.02
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(267.89)	(80.00)	(72.18)	(207.71)	85.78	195.26
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(267.89)	(80.00)	(72.18)	(207.71)	85.78	195.26
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(231.20)	(51.68)	(76.98)	(181.58)	48.58	20.64
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(1517.63)	737.41	(1490.85)	(1587.55)	935.27	(825.45)
6.	Equity Share Capital	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	:5	9.50	21511.91	1	0	26548.15
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
	Basic:	(2.15)	(0.48)	(0.72)	(1.92)	1.41	(0.04)
	Diluted:	(2.15)	(0.48)	(0.72)	(1.92)	1.41	(0.04)

Place : Gurugram

Date : 26/05/2025

(i) The above is an extract of the detailed format of the Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results is available on the website of Stock Exchange, BSE Limited, www.bseindia.com and Company's website, www.hbportfolio.com. The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below.

The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 26th May, 2025 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.



ANIL GOYAL aging Director) DIN: 00001938



Extract of Audited Standalone/ Consolidated Financial Results for the guarter and year ended 31 March, 2025

	Standalone							
Employee PRINCE		Quarter ended		Year ended				
Particulars	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024			
	Audited (Refer Note No.4)	(Un-audited)	Audited (Refer Note No.4)	Audited	Audited			
Total revenue from operations	2,85,603	3,26,402	3,33,198	15,61,104	16,00,679			
Profit before tax and exceptional items	8,638	14,811	13,332	53,470	50,447			
Profit before tax and after exceptional items	60,801	14,811	11,284	1,05,633	48,399			
Net Profit after tax	52,138	11,059	8,290	85,478	36,898			
Total Comprehensive Income after tax	51,568	11,094	2,840	84,963	24,656			
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share)	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601			
Other equity (excluding Revaluation Reserves)		- 11/		4,47,068	3,85,194			
Net worth				4,76,669	4,14,795			
Earning Per Share (Not annualized)								
Basic (amount in ₹)	17.61	3.74	2.80	28.88	12.47			
Diluted (amount in ₹)	17.61	3.74	2,80	28.88	12.47			

Diluted (amount in <)	17.01	3.14	2.00	20.00	12.47		
			(Figures in ₹ Lak	ths, unless other	wise Indicate		
	Consolidated						
Particulars		Quarter ended			Year ended		
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024		
	Audited (Refer (U Note No. 4)	(Un-audited)	Audited (Refer Note No. 4)	Audited	Audited		
Total revenue from operations from continuing operation	3,00,627	3,42,081	3,50,739	16,24,066	16,76,322		
Profit before tax and exceptional items from continuing operation	16,085	22,718	15,087	80,837	67,089		
Profit before tax and after exceptional items from continuing operation	46,681	22,718	13,039	1,11,433	65,041		
* Net Profit after tax	37,187	18,111	9,111	97,624	53,316		
* Total Comprehensive Income after tax	36,583	18,055	3,657	96,939	40,986		
Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 per share)	29,601	29,601	29,601	29,601	29,601		
Other equity (excluding Revaluation Reserves)		*****		5,50,910	4,84,591		
Net worth				6,76,897	6,03,030		
*Earning Per Share (Not annualized)							
Basic (amount in ₹)	11.88	5.32	2.91	30.41	16.11		
Diluted (amount in ₹)	11.88	5.32	2 91	30.41	16 11		

* included discontined operation

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges

The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange for the quarter and year ended March 31, 2025 under Regulation 33 of the SEBI (Isting Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid. Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindla.com and www.bseindla.com) and company's website www.ptcindla.com and he stock Exchange websites (www.ptcindla.com and he Stock Exchange websites www.ptcindla.com and he Stock Exchange websites (www.ptcindla.com and

The Board had also approved interim dividend @ 50% (₹ 5.00 per equity share) in its meeting held on April 26, 2025 and the same had already been paid by the Company.

Figures of last quarter are balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to

figures upto the third quarter of the relevant financial year Place: New Delhi (Dr. Manoi Kumar Jhawar) Date: May 26, 2025

Chairman & Managing Director

PTC India Limited

(CIN: L40105DL1999PLC099328) Registered Office: 2nd Floor, NBCC Tower, 15 Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066, Tel: 011- 41659500.41595100, 46484200, Fax: 011-41659144,

















अरां BANK खुदरा ऋणभ्रसायक एवं दुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एविस्तस भवन, टीगस-2 उत्तर प्रयोग एक्सिस के क्रिकेटिन, तृतीय ताल, आई-14, सेकटर-128, मोएजा एक्सोसले, जोगी जीन्स विमादास- मोएजा-201301 नमी मुंबई- 400708, पंजीकृत कार्यालय : त्रिशृत-, तृतीय तल, समधेख्यर मंदिर के स्वामने तो गार्वन, एतिसाबिज

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तिये के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एसदद्वारत अनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओ) और गाएंटर(थे) को सूचित किया जाता है कि प्रतिक् ऋणवाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अवल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिष्ठरण प्रतिपूर्व ऋणवा अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विकय 26-06-2025 को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है और "वहीं जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा जो नरिष्ठ कुमार समी (आवेदक) को ओर से प्रतिभूत को देय-भृपतेय 31/05/2023 के अनुसार देय र 25,81,379/— का भावी व्याज एवं लागतों की वसूती लिये किया जावेगा। अमिवार्य विवरणों के लिये कृपया संलग्नित नीलामी अनुसूची का संदर्भ ग्रष्टण करें :—

ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)	एसए		
आरक्षित मूल्य (रु. में)	रु. 40,50,780 /— (रुपये वालीस लाख प्रवास हजार सात सी अस्सी मात्र)		
घरोहर राशि जमा (७ में)	 4,05,078/- (रुपये चार लाख पांच इजार अप्तहत्तर मात्र) श्रीवी / पीओ को माध्यम से 'एक्सिस बैक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में भुगतानयोग्य 		
बोली वृद्धिशील राशि	७. 10,000/— (रुपये दस हजार मात्र) 25—06—2025 को अधिकतम 05.00 गजे तक - एक्सिस मयन, टॉवर—2. द्विपीय तक. आई-14. सोक्टर—128, नोएडा एक्सफेसचे, जेपी ग्रीम्स विशासक, नोएडा—201301, उत्तर प्रदेश में, जो भी मुकेष रिक्त को तसंबंधित , सम्प्रेषित डो		
बराज के साथ बोलियाँ / निविदा जमा करने की ऑतिम तिथि, समय एवं स्थान			
सार्वजनिक ई-नीलाभी की तिथि, समय एवं स्थान	28-00-2028 को 11,00 बजो और 12,00 बजो के मध्य 5 निनरों प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ, वेब पोर्टेस https://www.bunkeauctions.com पर 1ई-नीजरानी कोजी प्रप्य, पांचणा इस्तादि से समीवीण ई-नीजरानी निवेदा प्रतंख क्रयर वर्णितानुसार सेवा प्रदानी की वेबसाइट पर उपस्वक है।		

अनुसूची — संपत्ति का विश्वरण 165/661 आरक फर्नेट जो पू तल पर है जिसका गर्जित बेकका लगपर 15776 वर्ग जूट है. जो मेरीमांस्ट के नाम से जिरिक परिवार में जानके भीते की जूनि के अधिकारित प्रस्तुवाजीक जात के जब में, भारत में विश्वसण तक कार नार्विय के शाब प्रसाण क्षेत्री एवं शामाध्य सुविधाओं के उपयोगधीमकार के साथ, धीन एकजर्त टाउनक्षिप नीमरानाः साम- ईष्टरशिक्षपुरा टाव्या भीतवस्पर टावनील

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शतों के लिए कृपया प्रतिमृत ऋणवाला की वेबसाइट अर्थात् https://www.axish पर और बैंक की जनुमीदित सेवा प्रदाजी मैरारों शी। इंकिया प्राड्वेट लिमिटेड के वेब पोर्टल अर्थात् https://www.bankeau पर उपलब्ध लिंक का संवर्ष प्रहण करें।

त्रचन प्रदर्भ करे.) . वेंक की अमुनोदित लेवा प्रदानों **नैसर्स सी। इक्रिया प्राप्टनेट लिमिटेक** के माध्यम से उसके देव गोर्टर त बचुनावार राज्य प्रधान **राज्य रहा है। बुक्का प्राप्ताट स्थानटक** के मानवाम में उटके वर्ष साट रुक्का पर जोगरहरून किया वार्त्यारा में इस्पूज कोलेक्साराम्य मैंक के प्रापिकृत अगिकारों भी मुक्का सिंह करे हैंक को कार्य सर सावारी में 0673015430 पर संसर्व करें।

Sitara

दिनौकः 26-06-2025, रचानः दिल्ली

सेवा गृह ऋण लिमिटेड हार्यालय का पता: बिल्डिंग मं. ८, टॉवर सी, ८वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर तिटी, गुरुग्राम १२२००२ नियम -८(१) कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

हरता /- प्राधिकृत अधिकारी, पृत्रितरा वैंक लिमिटे

जबकि, नीचे हरताक्षरकर्ता, वितीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गिमींग तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम्, २००२ के अन्तर्गतं **सेया गृह रिम लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा धारा १३(२) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणियों/सह-ऋणियों/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राशि तथा उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **६० दिनों** के अन्दर अतिरिक्त ब्याज चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी करते हुँ। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जगरदर और आम जनता को यह सूचना दों जाती है कि नीचे हस्ताश्वरकरों ने उक्त नियमों के नियम हो? के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णिर संपत्ति पर कब्ना कर निया है। विशेष रूप से उधारकवाँ और आम जनता की इस संपत्ति से कोई लेन-देन करने की चेवावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखत बकाया राशि और ख्याज और आक्रस्मिक क्याय, लागतों के लिए सेंचा गृह दिन लिमिट्ड के प्रभाद के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान गुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनयम की धारा १३ की उप-धारा (८) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।

क. इं. उधारकर्ती/ बंधककर्ती/ गारंटर/ लेन का गाम और पता			माग सूचना की तिथि	
सं. उपारकता/ बचकर	उधारकता। बचककता। गारठर। लग का गाम आर पता	बकाया, राशि (रू.)	सांकेतिक करने की तिथि	
1.	ऋण खाता संख्या : LICP000005005125	₹ 31,68,510/-	19.12.2024	
	(१) श्रीमती रेनू श्रीवास्तव पति श्री अववेश कुमार, (२) श्री मीरज श्रीवास्तव पिता श्री अववेश कुमार श्रीवास्तव, (३) श्री मो. इरफान पिता श्री मो. इस्लम	(इकतीस लाख अइसठ हजार पांच सौ दस रूपये मात्र)	22.05.2025	
अर	ाल संपत्ति का विवरण : खेत खसरा नंबर १७३, मोहल्ला प्रीमियम्	नगर, परगना और कोइल,	जिला अलीगह.	
सी	माएं : पूर्वं - प्लॉट नं १७४ पश्चिम -प्लॉट नं १७२, उत्तर - ३० फीट रो	ह, दक्षिण - व्यक्ति का प्लॉट		
सी	मार : पूर -प्लाट न १७४ पाश्चम-प्लाट न १७२, उत्तर - ३० फाट स ऋण खाता संस्था : LICP00005006882 (१) श्रीमति शारदा देवी पति श्री मर्रेट सिंह,	ह, दक्षिण - व्यक्ति का प्लाट र ७,५१,७१ ८/- (सा त सार्ख हक्यावन हजार	12.09.2024	

न परः भाषात का १ववहण : वार्त न. १३७ भाग, नगला मन सिंह, माजा गंभीरपुरा, कमलपुर रोह, **कोइल, अलीगह्,** उ**त्तर प्रदेश, २०२००१ बंधक की गई संपत्तिभू-सण्ड का क्षेत्रफल १०० वर्गगण, सीमार्थ : पूर्व-प्लॉट राम खिलाड़ी पश्चिम- प्लॉट तारा चंद, उत्तर - गुलाब का मकान / रक्षीद का प्लॉट किशन लाल, दक्षिण** - १२ फीट वाइड रोह स्थान: अलीगढ़, दिनांक: 26.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेवा गृह ऋण लिमिटेड

इनसिल्को लिमिटेड

नोट:

(दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

पंजी. कार्यालय : बी—23, सैक्टर 63, नोएडा, चत्तर प्रदेश—201 301 फोन : 09837923893, क्ष्मेल आईडी : irsito2@gmal.com, केसाइट : www.irsicoindia.com 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण

विवरण	समाप्त तिमाही 31 मार्च 2025	वालू वर्ष (लेखापरीक्षित) 31 मार्च 2025 तक	पिछले वर्ष की समाप्ति (तेस्वापरीक्षित) 31 मार्च 2024	पिछले वर्ष की प्रासांगिक समाप्त तिमाही 31 मार्च 2024
परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	33	224	4,166	58
(क्षति) अवधि के लिए (कर, असाधारण और/या असामान्य नदों से पूर्व#)	-115	-227	3,438	-95
(क्षति) कर पूर्व अवधि के लिए (असाधारण और/या असामान्य नदों के बाद#)	-115	-227	3,438	-95
(श्वति) कर के बाद की अवधि के लिए (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद#)	-123	-283	3,136	-110
अवधि के लिए कुल व्यापक (श्वति) (इस अवधि (कर के बाद) के लिए (श्वति) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)}	-123	-283	3,136	-110
प्रदश इक्विटी शेयर पूंजी	6,272	6,272	6,272	6,272
आरक्षित (पुनर्मृत्यांकन आरक्षित छोड़कर) जैसा पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दिखाया गया है	111	-2,3	307	
प्रति शेयर आय (रु. 10 /— प्रति) (जारी और परिसमाप्त परिवालन के लिए) (अ) मूल (ब) परिसमाप्त	-0.20 -0.20	-0.45 -0.45	5.00 5.00	-0.18 -0.18

 उपरोक्त सेबी (सूबीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ वायर दिमाही वितीय परिणामों के विरुद्धत प्रारूप का विवरण है। वैधानिक लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2025 तक और तिमाही की समाप्ति पर स्टॅंडअलोन इंड एएस फाइनेंशियल पर संशोधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी की है। सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामी का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज (www.bseindia.com) औ कंपनी (www.insilcoindia.com) की वेबसाइट पर जपलब्द है।

#कंपनी के पास उपरोक्त अवधि में रिपोर्ट करने के लिए कोई असाधारण और असामान्य सामग्री नहीं है।

इनसिल्को लिमिटेड के निर्देशक मंडल के लिए और उनकी ओर से (दिनांक 25.06.2021 के प्रमाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) (दिनाक 25.06.2021 क प्रना इस्ता/— परिशल नारायणन विनोद प्रबंध नियेशक इनसिल्क लिथिटेंड के परिसामापक (पेजीकरण नंदर [BBI/IPA-001/IP-P-02564/2021-2022/13955] स्थानः मुंबई दिनांक: मर्ड 26, 2025 स्थानः नोएडा

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम ER-DDL रजि. आफिस : एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइन, किंग्सवे केम्प, दिल्ली—110009 CIN No. U40109DL2001PLC111526, देवसाइट: tatapower-ddi.com निविदा सूचना आमंत्रित May 27, 2025 टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है: बोली जमा कराने की अनुमानित बोली निविदा पूछताछ सं. अंतिम तारीख और समय/ लागतं/धरोहर दस्तावेज निविदा खोलने जमा राशि (रु) की बिकी की तारीख और समय TPDDL/ENGG/ENQ/200001820/25-26 17.06.2025;1300 Hrs 27.05.2025 Construction of new store shed at KPM Censtore. 17.06.2025:1330 Hrs TPDDI /ENGG/ENQ/200001821/25-26 19 06 2025:1300 Hrs Construction of new proposed Zonal 29.05.2025 2,58,000 19.06.2025;1330 Hrs Office building at Maggo substation near Payal Cinema TPDDL/ENGG/ENQ/200001818/25-26 7.55 Crs/ 17.06.2025:1500 Hrs 27.05.2025 13,34,000 17.06.2025;1530 Hrs Purchase of Storage 27.05.2025 17.06.2025;1500 Hrs. 17.06.2025;1530 Hrs TPDDL/ENGG/ENQ/200001819/25-26 85.53 Lacs/ SITC of Wi-Fi Access Points

34.5 - 34.15 (1.5) (1.5)	355	111000000110001100
शुद्धिपत्र/निविदा ।	तेथि विस्त	गर
निविदा पूछताछ सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा कराने की तिथि/बोली खोलने की तिथि
TPDDL/ENGG/ENQ/200001808/25-26 RC for Erection, Testing and Commissioning of 66KV and 33KV Bay Extension with Associated Electrical & Civil Works including Control Panel Construction along with Supply of 33KV & 66KV Isolators for a period of 2 yrs.	07.05.2025	03.06.2025 at 1600 Hrs/ 03.06.2025 at 1630 Hrs
TPDDL/ENGG/ENG/200001798/25-26 RC for Supply of 11 kV Smart RMUs at Tata Power-DDL Site/Store.	25.04.2025	06.06.2025 at 1600 Hrs/ 06.06.2025 at 1630 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001801/25-26 Annual RC for Supply Fuse Barrel of various rating at Tata Power-DDL Site/Store.	22.04.2025	02.06.2025 at 1500 Hrs/ 02.06.2025 at 1530 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001800/25-26 Annual RC for Supply Fuse Element of various rating at Tata Power-DDL Site/Store.	22.04.2025	02.06.2025 at 1600 Hrs/ 02.06.2025 at 1630 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध website www.tatapower-ddl.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents B

एक ब्लॉक क्रंट साइड जीवन पार्च

पुरुनानक एसोसिएट्स, उत्तम नगर,

बजाज हाउसिंग फाइबैंस लिमिटेड

कार्पीरेट **कार्पोरेट कार्यालय** : संरेबम आईटी पार्क, बी−2 बिल्डिंग, 5वा तल, कल्याणी नग **शाखा कार्यालय** : 14वा तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुमाण पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली−110034

निर्मित सम्पत्ति का उत्तरी तरफ का प्रथम तल, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, पूरव : बिल्डिंग का पोर्शन,

शाखा कायालय : 14वा तत, अध्याज मुद्र इहिट्स निर्माण सुनाण पतल, पातमपुत, मह 16स्था-190034

कार्याण पूर्ण ।

रिक्तीम आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अपिनियम, 2002 की घारा 13 (4),
प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1), (परिशिष्ट-1V) के तहत

अपिन्स प्रवर्ण इहित प्रवर्ण के अपिन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 5 के साथ प्रतित् आस्तिय आस्तिय का प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति क्षा प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति क्षा प्रतिभूति का प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति क्षा प्रति अपिन्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभृति का प्रतिभृति का प्रतिभृति का प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभाव का प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभृति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभूति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभूति का प्रतिभाव अपिन्माण तथा प्रतिभाव प्रतिभाव विभाव विभाव विभाव विभाव विभाव नेम्नितिष्ठित कर्जवार(रो)/ सह कर्जवार(रो)/ मासंटर(रे) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सुवना(र) जारी की थी, जिनमें उनसे लुकना ने वर्णित बकाया राष्टि का पुगतान उचत कृषा की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जवार/सह कर्जवार/यासंटर उचत राशि चुकाने में असकल रहे हैं. एतदद्वारा कर्जवास्(रो)/सह कर्जवास्(रो)/ गास्टर(रो) और जनसम्बारण को सुचना दी जाती है कि अवीहरतावरी ने नैसस बजाज हाजदिन फाइनेंस. विमिटेड की ओर से उचत नियमवादी, के निवन क्रां

कर्जदार(शे) / गारंटर(शे) को विशेष रूप से तथ	4) के सहत उसको प्रवत्त शाक्तवा का प्रयोग करते हुए वहा नीच वाणत र । जनसम्प्रारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं र र की इसमें वर्णित राशि(याँ) तथा उस पर मावी ब्याज के प्रथम प्रमार के अ	रुरने हेतु सावधान किया जाता	
कर्जदार(री) / गारंटर(री) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	अचल सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना तिथ्य और राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : दिल्ली (एलएएन नंबर H401HHL0298080 तथा H401HLT0306204 1. रंजीत सिंड (कर्जदार)	निम्न वर्णितानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति कं सभी अंश एवं खंड : जीवन पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 के रूप में ज्ञात ग्राम असालतपुर खादर की राजस्य सम्पदा में स्थित	₹. 35,35,838 /- (रूपए	23-05-2025 पॅतीस लाख इतीस मात्र)
2. ननीमा मनीमा (सह-कर्णदार) निवासी : प्लॉट नवर 81–82. प्रथम तल	खसरा नंबर 10/21 के माग में प्लॉट नंबर 81 तथा 82 परि	माप 100 वर्ग गज यानी	83.61 वर्ग मीटर ए

स्ट दिल्ली—110059 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड तिथि : 27-05-2025 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

पश्चिम : बिल्डिंग का पोर्शन, उत्तर : रोड 20 फीट, दक्षिण : बिल्डिंग का पोर्शन

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-11000

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के अंतर्गत, बिक्री की घोषणा के निपटान के लिए नोटिस टी आर सी /2148 /2022 24.03.2025

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. बनाम आशीष बिहारी नारायण एवं अन्य

(सीडी 1) आशीष बिहारी नारायण पत्र नारायण चतर बिहारी, 605, वीएसएनएल अपार्टमेंट सी-58 / 17, सेक्टर 62, नोएडा, यू.पी

(सीडी 2) महेंद्र शर्मा पुत्र दया राम शर्मा, 251, मवई, विजय नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. (सीडी 3) मेसर्स श्रेया डेवलपमेंट (प्रा.) लि., पंजीकृत एवं कार्पो. कार्यालय:- ए-8, स्वास्थ विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

जबिक आपको, आशीष बिहारी नारायण एवं अन्य को ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी द्वारा, जिन्होंने दिनांक 24.11.2022 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था, आवेदक बैंक(ओं) / वित्तीय संस्थान(ओं) को आवेदक के नाम से रु. 30,75,357.89 (रु. तीस लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) की राशि के साथ 25. 02.2013 से वसूली तक @13% की दर से पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज और रु. 33,000/— की लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया था और जबकि उक्त का भुगतान नहीं किया गया है, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे उल्लिखित अचल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

2. आपको सुचित किया जाता है कि बिक्री की घोषणा तैयार करने तथा उसकी शर्तों को तय करने के लिए दिनांक 06.06.2025 को पूर्वा 10.30 बुजे निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी भाग से जुड़े किसी भी भार, प्रभार, दावे या देनदारियों को नीचे हस्ताक्षरकर्ता के घ्यान में लाएं।

सम्पत्ति का विवरणः संपत्ति जिसका आवासीय पलैट / यूनिट सं. ०८, जैस्मीन- । ।, हिंडन हाइट्स नामक प्रौजेक्ट में, नूर नगर, एनएच-५८, राज नगर के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित नूर नगर, एनएच–58, राज नगर के शानन, गाजियाबाय, उत्तर नगर नगर न यह दिनांक 24.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत दिया गया क्लुली अधिकार

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

🔳 सुचना 🖿

दिनांक 27/08/2025 से भांकरोटा जयपुर शाखा (बिल्डिंग नं.518/2667, पहली मंजिल, कृष्णा प्लाजा, एनएच-8, अजमेर रोड, मांकरोटा, जयपुर जिला., राजस्थान पिन - ३०२ ०२६ फोन -9116012972 / 9072695087) 4 सभी व्यवसायिक गतिविधियाँ अब से बेहतर प्राहक सेवा एवं संचालन सुविधा के लिए भांकरोटा जयपुर नई शाखा (प्लॉट नं.78/79/80, नीर सागर मार्केट, अशोक हॉस्पिटल के पास, भांकरोटा, जयपुर जिला., राजस्थान पिन - 302 026. फोन -9116012972 / 9072695087) 社 किये जाएगें। सभी ग्राहको से निवेदन है कि वो इस परिवर्तन को नोट करें। आगे से सभी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए

Call: 8949226205 / 9059384304 / 9314374700

बदले हुए पते पर संपर्क करे।

MANAPPURAM FINANCE LTD CIN: L65910KL1992PLC006623, gistered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

प्य एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31. एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम - 122001, हरियाणा

फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com 31/03/2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (पृथवकृत और समेकित) का विवरण

丣.	विवरण					समेकित	
सं.		तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त
		31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025		31/03/2024	31/03/2025
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	208.21	3340.60	1492.31	429.56	3732.13	2784.02
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) (कर, अपवाद मदौं से पूर्व)	(267.89)	(80.00)	(72.18)	(207.71)	85.78	195.26
3. 4.	अवधि हेतु शुद्ध लाम /(हानि) कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	(267.89)	(80.00)	(72.18)	(207.71)	85.78	195.26
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ /(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	(231.20)	(51.68)	(76.98)	(181.58)	48.58	20.64
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ /(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	(1517.63)	737.41	(1490.85)	(1587.55)	935.27	(825.45)
3.	इक्विटी शेयर पूंजी	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42	1076.42
3. 7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	*	*	21511.91	4	3=	26548.15
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)			***********	III 240 - 201		
	मूल :	(2.15)	(0.48)	(0.72)	(1.92)	1.41	(0.04)
	तनुकृत :	(2.15)	(0.48)	(0.72)	(1.92)	1.41	(0.04)

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 26/05/2025

डीलिंग अधिकारी

का नाम

वर्षत-1: PUNB835212036 संपत्ति-2: PUNB835212033 संपत्ति-3: PUNB835212034 संपत्ति- 4: PUNB835212032

संपत्ति- 5: PUNB835212035

संपत्ति-6: PUNB835212031

खाते का नाम तथा पता

मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन अपने साझेदारों के माध्यम से गाँव

बरवाला चंडीगढ़ रोड कोहरा के पास (लिधयाना)-

141112 और बी3,1015/2, सर्कुलर रोड, लुधियाना-

141003, श्री विमल टंडन पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल, (साझेदार

मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन, गारंटर, श्रीमती नीलम रानी के

कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी बी3, 1015/2, सर्कुलर रोड,

लुधियाना-141003, और गाँव बरवाला, चंडीगढ़ रोड,

कोहरा के पास, लिधयाना-141112, श्री नितिन टंडन पुत्र श्री

विमल टंडन, (साझेदार मेससं शिवा कंस्ट्रक्शन, गारंटर)

निवासी बी3, 1015/2, सर्कुलर रोड, लुधियाना-141003,

रेन् कोहली (श्रीमती नीलम रानी की कानूनी उत्तराधिकारी)

निवासी मकान नंबर 35, डॉ. छाबड़ा लेन, सुभाष रोड,

देहरादून, उत्तराखंड- 248001 और बी3, 1015/2, सर्कुलर

रोड. लिधयाना- १४१००३. श्री अरवनी टंडन (श्रीमती नीलम

रानी के कानुनी उत्तराधिकारी) निवासी बी3, 1015/2,

सर्कुलर रोड, लुधियाना-141003, श्रीमती कांता गुप्ता (गारंटर), निवासी प्लॉट नंबर 219 ए, गांव मोजा श्रीके, आबादी राजगुरु नगर, लुधियाना-141012, सुश्री गुरशरण कौर (गारंटर), निवासी फ्लैट नंबर बी-2-1117, छावनी मोहल्ला, बग्गा कलां, लुधियाना-141008, श्री परवेश पुरी पुत्र कैलाश नाथ पुरी (गारंटर), 651/1-ए, कुंदन पुरी, सिविल लाइन्स, लुधियाना-141001, श्री सरवन कुमार (गारंटर), निवासी मकान नंबर 661,25- डी-5सी, गली . नंबर 3. सवार्नेद कॉलोनी ब्लॉक नंबर 25, बस्ती जोधेवाल.

सम्पर्क नं.

成.

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए उसमाप्त विमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। समाप्त विमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण रटांक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www. hbportfolio.com पर उपलब्ध है। उसको नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है। उसको नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

(ii) - उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 26 मई, 2026 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।



कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड अनिल गोयल (प्रबंध निदेशक) DIN: 00001938 💶 एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31. एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32. गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com

_		0 0		(स. लाख र
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त
		31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	0.81	13.63	19.02
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद मदो से पूर्व)	(13.70)	4.52	(29.60)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद मदों के बाद)	(13.70)	4.52	(29.60)
٤.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (अपवाद मदों के बाद)	(13.40)	4.50	(29.30)
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं	(13.98)	4.50	(29.88)
3.	इक्विटी शेयर पूंजी	1286.27	1100.41	1286.27
	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर, जैसाकि पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	NA	NA	(715.62)
3.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/- प्रत्येक) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)			
	मूल :	(0.12)	0.04	(0.26)
	तनुकृत :	(0.12)	0.04	(0.26)

तनुकृत : नोट्स :

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज को प्रस्तुत किए गए समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com पर उपलब्ध है। उसको नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

(ii) उपरोक्त परिणाम अंकेक्षण समिति के समक्ष 28 मई, 2025 को सम्पन्न उसकी बैठक में प्रस्तुत एवं उसके द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को सम्पन्न उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

आस्ति वसुली प्रबंधन शाखा, साइट नंबर 5, वेव मॉल के पास, फिरोजपुर रोड, लुधियाना



C) सस्फैसी अधिनियम, 2002 की धार 1×4) के तहत करूजे की तिथि

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 26/05/2025

हस्ता./-अनिल गोयल (प्रबंध निवेशक DIN: 00001938

प्रतिभति लेनदार

के संज्ञान

में ज्ञात ऋणभारों

का विवरण

कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

pnb punjab national bank

ई-मेल: cs4540@pnb.co.in, मोबाइल. :- +91 78956 69111, +91 96907 03035 चल/अचल संपत्ति/यों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सार्वजनिक सुचना

ईएमडी

सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6 और 9 के साथ पठित नियम 6(2) और 8(6) के अंतर्गत आम जनता के लिए

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रायधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15/30 दिवसीय साविधिक ई-नीलामी बिक्री सुचना

एतदुद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभृति ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभृति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को संबंधित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) से बैंक/प्रतिभृति ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जहां है, जैसा है'', ''जो है, **यही है'' तथा** ''जो **कछ भी है वहीं है**'' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मल्य तथा जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

बिक्री 18.06.2025 को सुबह 11.00 बजे से शाम 04:00 बजे तक वेबसाइट https://BAANKNET.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि 02.06.2025 से 07.06.2025 तक 11:00 बजे अप. से 5:00 बजे अप. तक है।

बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामी

(सम्पत्ति के बंधककर्ता) का नाम

नीलामी की तिथि से पहले https://BAANKNET.com पोर्टल पर ईएमडी जमा करना और ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य है।

मेससं पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, पीटेल हेल्प डेस्क नंबर +91 82912 20220, ई-मेल आईडी: support.BAANKNET@psballiance.com, उपलब्धतः नीलामी प्रक्रिया, पंजीकरण स्थिति, तकनीकी सहायता आदि पर मार्गदर्शन के लिए सभी कार्यशील तिथियों पर 09.00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. तक

प्रतिभूत	परिसंपत्तियों	की	अनुसूची

	D) कब्जे की प्रकृति	बोली वृद्धि राशि	
	D) over an Noble		
संपत्ति-1: 158-1/3 वर्ग गज का प्लॉट, जो तरफ काजी तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा नंबर 173 खाता नंबर 52/72 जमाबंदी में वर्ष 1968-69 में शामिल है, जो नीलम रानी पत्नी श्री पुरुषोत्तम लाल टंडन पुत्र प्यारे लाल टंडन के नाम पर है, वसीका नंबर 6295 बिक्री विलेख के तहत दिनांक 08.01.1971 को सब-रजिस्ट्रार लुधियाना के पास पंजीकृत हैं।	27.02.2023	₹. 2,49,00,000/-	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात नहीं
	सोसी, सीईसीएफ, सावधि ऋण के शेष के लिए 31.01.2023 तक रु. 16.31,98,681.60 और 31.01.2023 तक रु. 60,07,056.00, जिसके लिए बैंक ने लागार्थियों के पक्ष में आपको ओर से बीजी जारी को है, जो बसुली के अधीन है, जिसके लिए बैंक 01.02.2023 से पूर्ण भुगतान होने तक बसुली (यदि कोई हो) घटाकर अतिरिक्त ब्याज और शुक्क बसुलने का अधिकार सुर्राक्षत रखता है		
		₹. 24.90.000/-	
	05.05.2023	₹. 5,00,000/-	
	साँकेतिक कव्जा		
संपत्ति-2: गांव गिल 2, तहसील और जिला लुधियाना में स्थित 0बी-5बी-7बी माप की औद्योगिक संपत्ति, जो खेवट नंबर 280 खतौनी नंबर 305 पी 285 खसरा नंबर 1621 में शामिल, वर्ष 1995–96 की जमाबंदी, हदबस्त नंबर 263 विमल कुमार टंडन पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल टंडन के नाम पर वसीका नंबर 3919 बिक्री विलेख के माध्यम से दिनांक 31.05.2002 को सब-रजिस्ट्रार	05.05.2023	₹. 80,00,000/-	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात नहीं
	सांकेतिक कब्जा	₹. 8,00,000/-	
	लुधियाना (पश्चिम) के पास पंजीकृत।	₹. 1,00,000/-	
संपत्ति- 3: 300 वर्ग गज का मकान, प्लॉट नंबर 219 ए, गांव मोजा श्लीके हदबस्त नंबर 156 तहसील	05.05.2023	₹. 2,71,00,000/-	गविश्व चेच्य
	34 200 - 200	V. 2,7 1,00,000/	reference and rea
1, 199	सांकेतिक कब्जा	₹. 27.10.000/-	
और जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 । एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234	₹. 27,10,000/- ₹. 5,00,000/-	प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं
और जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित हैं, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 खाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 1992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वार्षे 05.05.2023	を、27,10,000/- で、5,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास पं
और जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित हैं, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 बाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के प्रंपति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ सेखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 १ एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष त्नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वाले 05.05.2023 सांकेतिक कब्जा	হ. 27,10,000/- হ. 5,00,000/- বিক্লয় বিশৈল্প দ্রান্য মন্ত্র-বিজ্ঞান্ত হ. 60,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास प प्रतिभूत लेनद
तीर जिला लुधियाना आयादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- तीर खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 बाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 1992-93 की जमार्वदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के संपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा	253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 १ एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष इ नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04,1997 वाले 05.05.2023 सांकेतिक कब्जा	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- विक्रय विलेख द्वारा सब-रजिर रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास प प्रतिभूत लेनद
तीर जिला लुधियाना आयादी राजगुरु नगर में स्थित हैं, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- तीर खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 ब्राता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के गंपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा बिर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष	253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 १ एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष इ नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04,1997 वाले 05.05.2023 सांकेतिक कब्जा	হ. 27,10,000/- হ. 5,00,000/- বিক্লয় বিশৈল্প দ্রান্য মন্ত্র-বিজ্ঞান্ত হ. 60,00,000/-	को ज्ञात नर्ह ट्रार लुधियाना के पास प प्रतिभृत लेनद
गैर जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित हैं, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- गैर खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 ब्राता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 992-93 की जमावंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के गेपित- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ सेखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा विर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष त्र श्री छज्जू राम के नाम पर, वसीका नंबर 8858 दिनांक 30.10.2002 को सब-रजिस्ट्रार लुधियाना (253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 १ एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वाले 05.05.2028 सांकेतिक कब्बा 1996-97 के लिए जमाबंदी कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदर प्रसाद पूर्व) के पास पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत।	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- विक्रय विलेख द्वारा सब-रजिर रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास प प्रतिभृत लेनद को ज्ञात नहीं
तौर जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- तौर खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 ब्राता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के संपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा संवर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष पत्र श्री छज्जू राम के नाम पर, वसीका नंबर 8858 दिनांक 30.10.2002 को सब-रिजस्ट्रार लुधियाना (संपत्ति- 5: आवासीय प्लॉट नंबर 26 का समस्त भाग, माप 192.5 वर्ग गज और प्लॉट नंबर 27,	253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 पूर्व खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वाले 05.05.2028 सांकेतिक कब्बा 1996-97 के लिए जमाबंदी कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदर प्रसाद पूर्व) के पास पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत। 05.05.2028 सांकेतिक कब्बा	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- त विक्रय विलेख द्वारा सव-रिजर रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/- रु. 1,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास प प्रतिभृत लेनद को ज्ञात नहीं प्रतिभृत लेनद
और जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 खाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 1992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के संपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा मंबर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष पुत्र श्री छज्जू राम के नाम पर, वसीका नंबर 8858 दिनांक 30.10.2002 को सब-राजिस्ट्रार लुधियाना (संपत्ति- 5: आवासीय प्लॉट नंबर 26 का समस्त भाग, माप 192.5 वर्ग गज और प्लॉट नंबर 27, माप 250 वर्ग गज, ग्राम दाद हदबस्त नंबर 279 पर स्थित तहसील और जिला लुधियाना आबादी र	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 पूर्व खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वाले 05.05.2028 सांकेतिक कब्बा 1996-97 के लिए जमाबंदी कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदर प्रसाद पूर्व) के पास पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत। 05.05.2028 सांकेतिक कब्बा सराभा नगर एक्सर्टेशन 3, खसरा नंबर 1612, 2065/1610,	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- ते विक्रय विलेख द्वारा सव-रिजर रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 69,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास पं प्रतिभृत लेनदा को ज्ञात नहीं प्रतिभृत लेनदा
और जिला लुधियाना आबादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 बाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 1992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्व. छज्जू राम गुप्ता के संपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा मंबर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष पुत्र श्री छज्जू राम के नाम पर, वसीका नंबर 8858 दिनांक 30.10.2002 को सब-रजिस्ट्रार लुधियाना (संपत्ति- 5: आवासीय प्लॉट नंबर 26 का समस्त भाग, माप 192.5 वर्ग गज और प्लॉट नंबर 27, माप 250 वर्ग गज, ग्राम दाद हदवस्त नंबर 279 पर स्थित तहसील और जिला लुधियाना आवादी र 2066/1610,2067/1610,1611 खाता नं. 113/151,114/152,115/153,116/154,117/155 में 3	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 9 एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्षः नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04,1997 वाले	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 6,90,000/- रु. 6,90,000/- रु. 1,00,000/- रु. 1,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास पं प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं
और जिला लुधियाना आयादी राजगुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242- और खसरा नंबर 243-246-247-248-249-250/1 शामिल हैं, खाता संख्या 433/506 एवं 589/674 बाता नं. 434/507 एवं 435/508- 498/579-539/620-544/625-559/640-560/641 एवं खसरा 1992-93 की जमाबंदी के माध्यम से कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदरपाल गुप्ता पुत्र स्थ. छज्जू राम गुप्ता के संपत्ति- 4: 200 वर्ग गज का प्लॉट, गांव तरफ संखेवाल तहसील और जिला लुधियाना में स्थित, खसरा नंबर 8-917/10-7-6 खाता नंबर 497/513 से 515-498/516-499/517 से 522 तक शामिल है, वर्ष पुत्र श्री छज्जू राम के नाम पर, वसीका नंबर 8858 दिनांक 30.10.2002 को सब-रजिस्ट्रार लुधियाना (संपत्ति- 5: आवासीय प्लॉट नंबर 26 का समस्त भाग, माप 192.5 वर्ग गज और प्लॉट नंबर 27, माप 250 वर्ग गज, ग्राम दाद हदबस्त नंबर 279 पर स्थित तहसील और जिला लुधियाना आवादी र 2066/1610,2067/1610,1611 खाता नं. 113/151,114/152,115/153,116/154,117/155 में र बरपोत्तम लाल टंडन हारा वसीका क्रमांक 7004 दिनांक 23.06.2008 एवं वसीका नं. 20225 वि	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 9 एवं खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्षः नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04,1997 वार्षः	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 6,90,000/- रु. 6,90,000/- रु. 1,00,000/- रु. 1,00,000/-	को ज्ञात नहीं प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं प्रतिभृत लेनदा को ज्ञात नहीं को ज्ञात नहीं
और जिला लुधियाना आबादी राजपुरु नगर में स्थित है, जिसमें खसरा नंबर 235-236-252-241-242-	-253- 254-255-256-257-258-259 खाता नंबर 402/473 पूर्व खसरा नं. 244-245-232-261 -262-260-237-234 नं. 233-229-230-231 खाता नं. 499/580-503/584 वर्ष नाम पर, वसीका क्रमांक । 1156 दिनांक 11.04.1997 वार्ल 05.05.2025 सांकेतिक कब्जा 1996-97 के लिए जमाबंदी कांता गुप्ता पत्नी श्री राजिंदर प्रसाद पूर्व) के पास पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत। 05.05.2025 सांकेतिक कब्जा सराभा नगर एक्सटेंशन 3, खसरा नंबर 1612, 2065/1610, शामिल वर्ष 2004-2005 की जमाबंदी विमल टंडन पुत्र श्री दंनांक 14.03.2008 वाले विक्रय विलेख द्वारा उप-रंजिस्ट्रार	रु. 27,10,000/- रु. 5,00,000/- रु. 60,00,000/- रु. 60,00,000/- रु. 6,00,000/- रु. 69,00,000/- रु. 6,90,000/- रु. 1,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 1,00,000/-	को ज्ञात नहीं ट्रार लुधियाना के पास पं प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं प्रतिभूत लेनदा को ज्ञात नहीं

लुधियाना-141007

बिकी प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ में निर्धारित नियम एवं शतौ तथा आगे निम्नलिखित शतौ के अधीन होगी : सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जा रही है।

यहाँ ऊपर अनुसुची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकृत प्राधिकृत प्राधिकृत प्राधिक से उसे हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्धोषणा में किसी तुटि, गलतवयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से 18.06.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक होगी। बिक्री के बिस्तृत नियम एवं शर्ती के लिए कृपया https://baanknet.com देखें।

आरक्षित मूल्य से ऊपर, न्यूनतम एक बोली राशि अनिवार्य है। बिजली, गृहकर आदि के लिए बकाया शुल्क/बिल नीलामी क्रेता द्वारा चहन किया जाएगा।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम s(6) के तहत साविधिक बिक्री सुचना तिथि : 26.05.2025, स्थान : लुधियाना

अधिकृत प्राधिकारी - पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार)